



# जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 10.02.2021

## थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा ग्राम बुटराड़ी में रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट मामले में 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 09.02.2021 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बुटराड़ी में खेत के रास्ते के विवाद को लेकर सतपाल पुत्र अमर सिंह, अंकित, अरुण पुत्रगण सतपाल के साथ पप्पू पुत्र अतर सिंह व अन्य 05 अभियुक्तों द्वारा लाठी-डण्डों, देशी कट्टा व धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया गया। जिसके संबंध में सतपाल द्वारा लिखित तहरीर थाने पर दी गई। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना कोतवाली शामली को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 09.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा ग्राम बुटराड़ी में दबिश की कार्यवाही करते हुए, अभियुक्तगण विजेन्द्र, सिरदारा, श्याम सिंह को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- विजेन्द्र पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम बुटराड़ी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 2- सिरदारा पुत्र फेरू निवासी ग्राम बुटराड़ी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 3- श्याम सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम बुटराड़ी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विजय त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. है0का0 जोगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



## थाना गढीपुख्ता

**थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अंदर अल्प समय में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 लुटेरे एवं लूट का माल खरीदने वाला सर्राफ गिरफ्तार, लूटी हुई सम्पत्ति, अवैध हथियार एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद:-**

दिनांक 09.02.2021 को दोपहर करीब 14.30 बजे थानाक्षेत्र गढीपुख्ता के कच्ची गढी से डॉक्टर से बच्चे को दवाई दिलाने मोटरसाइकिल से जा रहे भावसा सहारनपुर के रहने वाले भाई-बहन को पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात बदमाशों द्वारा अवैध हथियारों के बल पर कच्ची गढी रजवाहा पटरी पर रोककर दो अंगूठी, कानों के कुण्डल, मोबाइल लूट की घटना कारित की गई। घटना के संबंध में थाना गढीपुख्ता पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी कर बदमाशों की तलाश करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गई। घटना के संबंध में अनिल कुमार पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम भावसा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर की दाखिला तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी थानाभवन एवं पुलिस अधीक्षक शामिल द्वारा घटनास्थल का दौराकर थाना गढीपुख्ता को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही घटना के अनावरण हेतु एसओजी को भी लगाया गया।

आज दिनांक 10.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामिल श्री सुकीर्ति माधव के निर्देशानुसार थाना गढीपुख्ता पुलिस एवं एसओजी द्वारा तत्परता से संयुक्त कार्यवाही करते हुए कल दिनांक 09.02.2021 को हुई लूट की घटना के संबंध में महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर 24 घण्टे से भी अल्प समय में घटना में शामिल दो लुटेरे अजमल व रज्जू उर्फ शहनवाज को मुण्डेट गेट से गिरफ्तार करते हुए लूट की घटना का सफल अनावरण करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। लुटेरों से लूटी हुई सम्पत्ति, नकदी, घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार, कारतूस व पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उक्त घटना में मिले लूट के जेवर खरीदने वाले सर्राफ दीपक को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के तीसरे साथी शाहरूख की तलाश में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

**अपराध कारित करने का तरीका:-** गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई है जिसके अनुसार तीनों लुटेरे स्मैक आदि का नशा करते हैं। नशे के लिए पैसों की आवश्यकता होने पर उनके द्वारा गढीपुख्ता क्षेत्र में लूट करने की योजना बनाई। दोपहर बाद कच्ची गढी नहर पटरी पर मोटरसाइकिल से कच्ची गढी की तरफ जा रहे एक व्यक्ति और महिला को रोककर उनसे तमंचा दिखाकर, सोने की अंगूठी, कानों के कुण्डल और मोबाइल फोन लूटकर भागना तथा पकड़े जाने से बचने के लिए बरामदा पल्सर

मोटरसाइकिल की नम्बर प्लेट पर मिट्टी लगाकर उसके नम्बर छिपाना बताया गया है। लूटे हुए जेवर उसके द्वारा सर्राफ को बेचने की जानकारी दी है। अभियुक्तगण से पूछताछ जारी है। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

#### **नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

1. अजमल पुत्र मशरूर निवासी ग्राम बुन्टा थाना गढीपुख्ता जनपद शामिल।
2. रज्जू उर्फ शहनवाज पुत्र शफीक निवासी ग्राम कच्ची गढी थाना गढीपुख्ता जनपद शामिल।
3. दीपक पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कच्ची गढी थाना गढीपुख्ता जनपद शामिल।

#### **नाम व पता फरार अभियुक्त:-**

1. शाहरुख पुत्र बल्ला कुरैशी निवासी ग्राम कच्ची गढी थाना गढीपुख्ता जनपद शामिल।

#### **बरामदगी का विवरण:-**

1. लूटी हुई सम्पत्ति एक अंगूठी पीली धातु, दो कानों के कुण्डल पीली धातु, वीवो-1906 मोबाइल।
2. नकदी 9550/- रुपये लूट के जेवर बेच के प्राप्त किये।
3. लूट में प्रयुक्त अवैध तमंचा 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस।
4. लूट में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल नम्बर- UP-19H/7649।

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामिल।
2. है0का0 विकास SOG जनपद शामिल।
3. है0का0 जितेन्द्र कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामिल।
4. का0 अंशुल कुमार SOG जनपद शामिल।
5. का0 संजीव कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामिल।
6. का0 विजय कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामिल।

**नोट:-** गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक शामिल द्वारा उत्साहवर्धन हेतु 10,000/- रुपये के नकद ईनाम की घोषणा की है।

